



# NOPANY HIGH

(I.C.S.E. & I.S.C Affiliated)

2-C, Nando Mullick Lane, Kolkata - 700006

## Syllabus

Academic Session: (2024-2025)

Class - X

**SUBJECT : Hindi**

MONTH	TOPIC	NO. OF PERIODS	WORKSHEETS/ACTIVITY
<b>Textbook 1. Name</b> : साहित्य सागर <b>Publisher</b> : एवरग्रीन पब्लिकेशंस इंडिया लिमिटेड			
<b>Text book 2. Name</b> : सरस हिंदी व्याकरण <b>Publisher</b> : एवरग्रीन पब्लिकेशन			
<b>Sep'24</b>	1. संदेह	2	Worksheet will be provided
<b>Oct'24</b>	शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर	2	
	Class Test	1	
	2. भाववाचक संज्ञा	2	Worksheet will be provided
	Class Test	1	
	3. विलोम शब्द	2	
<b>Nov'24</b>	1. भीड़ में खोया आदमी	3	Worksheet will be provided
	Class Test	1	
	2. पर्यायवाची शब्द	2	Worksheet will be provided
	Class Test	1	
	3. मुहावरे	2	
<b>Dec'24</b>	1. विनय के पद	3	Worksheet will be provided
	Class Test	1	
	2. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	2	Worksheet will be provided
	Class Test	1	
	3. अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना	2	
<b>Jan'25</b>	चलना हमारा काम है	3	Worksheet will be provided
	Class Test	1	
	पत्र लेखन	2	
	निबंध लेखन	2	
	अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	2	Worksheet will be provided
<b>Feb'25</b>	अपठित गद्यांश	2	
	पत्र लेखन	2	
	निबंध लेखन	2	
	HindiProject परियोजना कार्य	2	तुलसीदासजी का जीवन परिचय और कृतियों का उल्लेख करते हुए विनय के पद का भावार्थ और उद्देश्य लिखिए
	Revision Class		

**SUBJECT :Computer Application****Textbook Name : Understanding Computer Applications with BlueJ Class X****Publisher : Arya Publishing Company****Author Name : Vijay Kumar Pandey and Dilip Kumar Dey**

MONTH	TOPIC	NO.OF PERIODS	WORKSHEETS/ACTIVITY
Sept'24	<b>Chapter 3:</b> Revision of Arrays	1	<b>Lab Activity</b>
Oct'24	<b>Chapter 3:</b> 2D Arrays	3	<b>Lab Activity</b>
Nov'24	<b>Chapter 4:</b> String Handling <b>Chapter 6:</b> Class as a basis of all Computation	3	<b>Lab Activity</b>
	Class Test : Strings	1	
Dec'24	<b>Revision</b>	2	
<b>Project</b>			<b>10 Programs on Functions, Arrays and Strings. List of programs already provided.</b>
<b>* Note: No. of Periods mentioned may vary</b>			

**SUBJECT: PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION**

MONTH	TOPIC	NO. OF PERIODS	ACTIVITY
<b>September '24</b>	1. Fitnessgram	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Free Hand Exercises</li> </ul>
	2. Cricket	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rules Ragulations</li> <li>• Techniques And Skills</li> </ul>
<b>October '24</b>	1. Fitnessgram	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Free Hand Exercises</li> </ul>
	2. Badninton	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rules Ragulations</li> <li>• Techniques And Skills</li> </ul>
<b>November '24</b>	1. Mass Drill & Fitnessgram	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Callisthenics, Aerobics &amp; Yoga.</li> </ul>
	2. Basket Ball	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rules Ragulations</li> <li>• Techniques And Skills</li> </ul>
<b>December '24</b>	1. Mass Drill & Fitnessgram	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Callisthenics, Aerobics &amp; Yoga.</li> </ul>
	2. Football	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rules Ragulations</li> <li>• Techniques And Skills</li> </ul>
<b>January '24</b>	1. Mass Drill & Fitnessgram	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Callisthenics, Aerobics &amp; Yoga.</li> </ul>
	2. Table Tennis, Chess & Carrom	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rules Ragulations</li> <li>• Techniques And Skills</li> </ul>